



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 275) पटना, सोमवार, 18 मार्च 2024

सं० बी1-3-60(वेबकास्टिंग)/2023-1413
निर्वाचन विभाग

संकल्प

16 मार्च 2023

विषय :-लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए राज्य के लगभग 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग किये जाने, सभी मतगणना केन्द्रों एवं सभी चेक पोस्ट के स्थलों से सी0सी0टी0वी0 कैमरा निगरानी कार्य के लिए निविदा के माध्यम से प्राप्त रू0 31,34,66,711 /- (इकतीस करोड़ चौतीस लाख छियासठ हजार सात सौ ग्यारह रुपये) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-464/आई0एन0एस0टी0/2022 /ई0पी0एस0 दिनांक 19.06.2023 के आलोक में राज्य के न्यूनतम 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग किये जाने के प्रस्ताव के साथ सभी मतगणना केन्द्रों एवं सभी चेक पोस्ट स्थलों से सी0सी0टी0वी0 कैमरा द्वारा निगरानी किये जाने का प्रस्ताव है। मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग द्वारा मतदान के दरमियान की जा रही कार्रवाई एवं घटित होने वाले घटनाओं का अनुश्रवण जिलास्तर एवं मुख्यालय स्तर से की जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने में सहायता प्राप्त होगी तथा विधि व्यवस्था के संधारण में भी किसी तरह की कठिनाई होने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। मतगणना केन्द्रों पर कैमरा के लगाये जाने से मतगणना की प्रक्रिया का अनुश्रवण भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अनुसार सुनिश्चित किये जाने में सहायता प्राप्त होगी। इसी प्रकार निर्वाचन की अवधि में निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु सभी चेक पोस्टों पर कैमरा लगाये जाने से वाहन आदि की जाँच का प्रभावी अनुश्रवण किया जा सकेगा।

2. राज्य के मतदान केन्द्रों, मतगणना केन्द्रों एवं चेक पोस्ट स्थलों की विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0	कार्य के प्रकार	अनुमानित संख्या
1	मतदान केन्द्रों से लाईव वेबकास्टिंग	38784
2	मतगणना केन्द्रों पर कैमरे से निगरानी	323
3	चेक पोस्ट स्थलों पर कैमरे से निगरानी	729

3. यह कार्य लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के निमित्त किया जाना है, जिस पर होने वाले व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जायेगी। प्रस्तावित कार्य का दर ई-निविदा के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-

क्र०	कार्य के प्रकार	दर	कुल राशि
1(i)	मतदान केन्द्रों से लाईव वेबकास्टिंग	रु० 6050	रु० 234165250 /—
1(ii)	मानव बल (मतदान केन्द्र)	रु० 1650	रु० 63863250 /—
	मानव बल (निर्वाची पदाधिकारी/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्तर)	रु० 6500	रु० 2366000 /—
2(i)	मतगणना केन्द्रों पर कैमरे से निगरानी	रु० 7700	रु० 10564400 /—
2(ii)	मानव बल (मतगणना केन्द्र) (निर्वाची पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी)	रु० 1650	रु० 532950 /—
3	चेक पोस्ट स्थलों पर कैमरे से निगरानी	रु० 2709	रु० 1974861 /—
कुल योग—			रु० 31,34,66,711 /—

4. लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर राज्य के लगभग 38784 मतदान केन्द्रों/स्थलों से मतदान के दिन वेबकास्टिंग और लगभग 323 मतगणना केन्द्रों से मतगणना के दिन कैमरा द्वारा निगरानी एवं लगभग 729 चेक पोस्टों पर निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत की तिथि से कैमरा के द्वारा निगरानी कार्य किया जायेगा। उक्त कार्य पर होने वाले व्यय मांग सं० 06, मुख्यशीर्ष-2015-निर्वाचन, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष 0001-लोक सभा निर्वाचन विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय विपत्र कोड- 06 2015001050001 से विकलनीय होगा। उक्त कार्य पर होने वाले व्यय की राशि की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार की ओर से की जायेगी।

5. लोक वित्त समिति की दिनांक 13.03.2024 की आहूत बैठक में अनुशंसा के आलोक में लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए राज्य के लगभग 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग किये जाने, सभी मतगणना केन्द्रों एवं सभी चेक पोस्ट के स्थलों से कैमरा निगरानी के कार्य के लिए निविदा से प्राप्त रु० 31,34,66,711 /—(इकतीस करोड़ चौतीस लाख छियासठ हजार सात सौ ग्यारह रुपये) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 15.03.2024 में मद संख्या-93 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
—सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 275-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>